

**Shri Jagjivan Ram:** I do not think it has been sent to all these State Governments by the Railway Ministry.

**Shri Raghunath Singh:** Why was West Bengal alone consulted? It is passing through three other States, Punjab, U.P. and Bihar. Why were they not consulted?

**Shri A. C. Guha:** All the 4 State Governments of West Bengal, Bihar, U.P. and Punjab should be formally consulted even before they accept this thing even in principle.

**Mr. Speaker:** Order, order. I have already said that I will allow a discussion on this matter during the Railway Budget if there is a relevant cut motion.

**Shri Raghunath Singh:** But we cannot move cut motions, Sir.

#### प्रशिक्षण संस्था

\*४२७. श्री भक्त दर्शन : क्या सामुदायिक विकास तथा सहाकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों से मसूरी में सामुदायिक विकास की जो प्रशिक्षण भारतीय प्रशिक्षण संस्था सफलतापूर्वक चल रही थी उसे वहां से हटा कर हैदराबाद (मध्य प्रदेश) ले जाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके स्थानान्तरण का यह निश्चय किन विशेष कारणों से किया गया है ;

(ग) वह संस्था मसूरी से हैदराबाद कब तक बदल दी जायेगी ;

(घ) क्या उस संस्था के स्थानान्तरण के विरोध में उन्हें मसूरी नगरपालिका और अन्य संस्थाओं से कोई विरोध-पत्र मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहाकार उप-मंत्री (श्री ब० सु० श्रुति) : (क) से (ग) सामुदायिक विकास सम्बन्धी केन्द्रीय अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्था को मसूरी से हटाने का प्रश्न विचाराधीन है । प्रशिक्षण के सलाहकार बोर्ड ने संस्था को हटाने की सिफारिश निम्नलिखित प्राधारों पर की है :—

(१) यह केन्द्र में स्थित नहीं है ।

(२) यह ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है ।

(३) यह उच्च शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से पृथक पड़ता है । ऊँचाई और जलवायु का भी प्रश्न है ।

(ब) जो नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Mr. Speaker:** I am just making a suggestion. Whenever an hon. Minister is not able to read an answer in Hindi in a manner which could be understood by others, he may just indicate that to me. I am not accusing any hon. Minister. Certainly, they may learn Hindi from books, but they may not be able to pronounce it in a manner which is understood by others. They may just indicate this to me and I will ask the interpreter here to sit and read it for him, so that it may be understood. There are 70 Members here who have written to me that they do not know a word of English.

I am also contemplating having simultaneous translations. But that is a difficult affair. Translators are not available. In the meanwhile I will ask an interpreter to be here and read it out—or one of the office staff—wherever the Minister is not able to read it. (Interruptions).

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):** I will come to the rescue and read out the answers.

**Mr. Speaker:** I am happy the hon. Minister of Parliamentary Affairs undertakes to read these answers in Hindi.

**Shri Jagjivan Ram:** Other Ministers can read; it is quite intelligible. (*Interruption*).

**Shri M. S. Murthy (a) to (c).** The question of shifting the Central Institute of Study and Research in Community Development from Mussoorie is under consideration. The Advisory Board on Training has recommended the shifting of the Institute on the following grounds:—

- (i) It is not centrally situated;
- (ii) It is not in rural surroundings;
- (iii) It is isolated from higher educational and other training institutions. There is also the question of altitude and climate.
- (d) No.
- (e) Does not arise.

**श्री भक्त वर्दान :** क्या यह गत्य नहीं है कि जब यह संस्था स्थापित की गई थी उस समय मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी को मारे भारत का निरीक्षण करने के लिये भेजा गया था, और उमने उन सब बातों पर विचार करके अपनी यह सम्मति दी थी कि इसको मसूरी में रखा जाये। प्रतः जब यह निर्णय हो चुका था तो इसको बदलने के बारे में क्यों विचार किया जा रहा है ?

**The Minister of Community Development and Co-operation (Shri S. K. Dey):** At that time we did not have any ready accommodation which was suitable enough for this purpose in any part of India as Mussoorie offered.

**Shri Raghunath Singh:** In Banaras State there was ample accommodation; a whole building is vacant.

**Mr. Speaker:** The hon. Member may put a question.

**Shri Tyagi:** He is only making a suggestion, Sir.

**श्री ज० सा० द्विवेदी:** मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कब तक पूरा निर्णय हो जायेगा और कब तक यह इंस्टीट्यूट यहां से चला जाएगा ?

**Shri S. K. Dey:** We hope to be able to arrive at a decision in the course of the next 3 or 4 months. The question of shifting it to some other area will take, perhaps, a year more after we take the decision.

**Mr. Speaker:** Shri Raghubir Sahai.

**श्री ज० सा० द्विवेदी :** क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जो प्रशिक्षण का कोर्स प्रकतूबर में शुरू होने वाला है वह अब कहाँ होगा ?

**Mr. Speaker:** This would not be answered. I have already called the hon. Member, Shri Raghubir Sahai. No exception can be made in favour of this hon. Member. After Shri Raghubir Sahai I may give him an opportunity.

**Shri Raghubir Sahai:** May I know whether it is not a fact that one of the important considerations that Government took in view at the time when the Central Institute was located at Mussoorie was that it should be near Delhi? I would like to know whether that important consideration has been waived. If so, under what circumstances?

**Shri S. K. Dey:** The proximity to Delhi was not considered as important, in any case, because in these days of air and other traffic distances do not count as such.

**श्री ज० सा० द्विवेदी:** मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकतूबर के महीने में जो ट्रेनिंग का कोर्स चालू होने वाला है अब वह मसूरी में होगा या दूसरे किसी स्थान पर होगा ?

**Shri S. K. Dey:** Yes, Sir; it will be at Mussoorie.

श्री भक्त बर्धन : अभी बतलाया गया कि अभी इसके बारे में निर्णय नहीं हुआ है और कुछ स्थानों पर विचार किया जा रहा है। वे कौन-कौन से स्थान हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है ?

**Shri S. K. Dey:** Sir, it will be somewhere in the centre of India if we can make it and we are hoping that the Andhra State will offer us facilities at Hyderabad.

**Shri Tyagi:** The vicinity of the I.A.S. Training Institute was at Mussoorie was considered to be beneficial to this institution, because, after all, all the administrators of the whole of India would get their training at Mussoorie. I think the vicinity of that institution was one of the main arguments for sending this Training Institute to Mussoorie. What has happened to that?

**Shri S. K. Dey:** I am afraid that was not the consideration. I may assure the hon. Member that it is not the intention not to make any use of the facilities that are now available with us at Mussoorie. We shall use the facilities for training of other types of personnel. And, I suppose, that is all that the Mussoorie Municipality is concerned with.

श्री प्रकाशचोर सास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रशिक्षण केन्द्र जो इस समय मसूरी में कार्य कर रहा है, इस को दूसरे स्थान पर हटाने में कितने खर्च की हानि होगी ? क्या सरकार ने इसका जो अनुमान लगाया है ?

**Shri S. K. Dey:** I do not expect any loss to Government at all because we do not have any property at Mussoorie established at the expense of Government.

**Shri Ram Krishan Gupta:** May I know whether there was any request from the Punjab Government to shift this institute to Nilokheri?

**Shri S. K. Dey:** That is a different kind of institute. It is going on and there will be more institutions of that kind. We are now talking of the Central Institute of Study and Research at Mussoorie.

**Shri Tangamani:** Is it not a fact that a firm decision has already been taken for shifting the Central Institute of Study and Research to Hyderabad and the buildings are already available and the Andhra State Government has agreed to locate this there? If that is the decision where is the need for this delay?

**Shri S. K. Dey:** I am sorry no decision has yet been taken; nor is there any building readily available at Hyderabad where we can shift.

**Shri Yadav Narayan Jadhav:** May I know whether Government will think of having two institutes of this kind, one in the north and one in the south?

**Mr. Speaker:** The hon. Member wants to have two institutions.

**Shri S. K. Dey:** It is difficult to provide staff for even one.

**Shri Kamalnayan Bajaj:** May I know whether, by shifting the institute to a more central place in the plains, the cost of training will be reduced because in the hill stations the cost is generally higher?

**Mr. Speaker:** They are all points in favour.

**Shri S. K. Dey:** Perhaps, that will be considered.

**Shri D. C. Sharma:** May I know if the hon. Minister is aware of some of the adverse and unfavourable comments about the institute that it is not serving any very useful purpose? Has he got any reply to these comments?

**Shri S. K. Dey:** There are a number of our friends in this House who have also been to this institute. I have not

heard any adverse comments from any one of them. There have been others from the State Legislatures also and officers from States who have seen that. Whatever defects there are in the training are continually being corrected. But almost everyone has complained that after a certain age the high elevation is not very cordial in its hospitality to people.

### Colorisation of Vanaspati

+

\*423. { Shri Harish Chandra Mathur  
Shri Vidya Charan Shukla:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether tests for colorisation of Vanaspati have been finalised; and

(b) if so, what steps are being taken to enforce compulsory use of the colouring agent?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know the progress made in this matter and also whether any interim report has been received?

Shri A. M. Thomas: Research is going on for finding a suitable colour for vanaspati and that is being co-ordinated under the auspices of a committee of experts appointed by the Food and Agriculture Ministry on 10th June, 1960.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know whether the Government have clearly indicated their decision that as soon as the tests are finalised, vanaspati would be coloured and whether this decision has also been conveyed to the manufacturers?

Shri A. M. Thomas: The Government has agreed in principle, as the House, knows, that if a suitable colour is found colourisation would be in-

troduced for vanaspati. The difficulty is in finding a suitable colour. We should also remember that the remedy should not be worse than the disease.

श्री स० सा० द्विवेदी : क्या हुआ रिमर्क इन्स्टीट्यूट, देहरादून, ने किसी ऐसे कजर का प्राधिकार किया है, जिसके विशय में सरकार जांच कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

साध तबा कुचि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : कमेटी तो नियुक्त की गई है और उनकी रीकमेंडेन्स जब तक नहीं आयेगी, तब तक इस को दूसरे तीसरे इन्स्टीट्यूट के पास भेजना अच्छा नहीं होगा ।

श्री सादीबाला : माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह प्रश्न बार-बार आता है और बार-बार यही कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही रंग डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रमल घी खाने वाले हैं, इसमें रंग न मिनाने से उनको दिन-प्रति-दिन इस से नुकसान हो रहा है। अभी पिछले वक्त हमारे धूम्र मिनिस्टर ने भी यह कहा था कि इससे नुकसान होता है और जिन पदार्थों में वह जमाया जाता है, उनको बाड़ी हज्म नहीं कर सकती है और वे विचरने नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कब तक तन्दीली कर दी जायेगी, ताकि खाने वालों को घोखा न हो ।

श्री स० का० पाटिल : ये तब रोखें ठीक हैं, लेकिन वह विज्ञान को बात है और विज्ञान पर तो मेरा काबू नहीं है। जब तक वह चीज नहीं निकलेगी—दुनिया में अभी तक नहीं निकली है—तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता यह सब कुछ होते हुए भी ?

Shri S. M. Banerjee: May I know whether it is a fact that Government are unable to take a final decision because of the serious pressure from the manufacturers and if so what steps